

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

Tel.:011-26597534

No. IITD/IRD/RP03396G/11875

Date:04/09/2018

Advertisement No.: IITD/IRD/175/2018

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Next Generation Highly Efficient and Long Term Stable Solar Cells: Organic-Inorganic Perovskite Solar Cell (RP03396G)	
Funding Agency	Department of Science and Technology (DST)	
Name of the Project Investigator	Prof. Sandeep Kumar Pathak	
Deptt./Centre	Centre for Energy Studies	
Duration of the Project	Upto:30/07/2020	
Post (s)	Consolidated Pay-slab	Qualifications
Jr. Project Assistant (Admn) (1)	Rs.21,700-23,200-24,700-26,700-28,700-30,700/- p.m. (consolidated)	Graduate Degree / diploma (3 years duration). Knowledge of office procedure: Noting, drafting etc. and dealing with correspondence. Should have one year experience in one or more of the following: (a) Estt. and Admin. Matters (b) maintenance of accounts, priced store ledgers, processing of bills (c) process of store and purchase procedure (d) work connected with meetings, conferences, co-ordination (e) admissions and conduct of exams (f) knowledge of computers.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by post to Prof. Sandeep Pathak, Block-5, Centre for Energy Studies, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016. The advertisement No. & post applied for must be mentioned on the left side of the application.**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may write at e-mail id: ird12013@ces.iitd.ac.in 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by post is 19/09/2018 by 5.00 p.m.** The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

Distribution

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- प्रो.संदीप कुमार पाठक, परियोजना अन्वेषक, ऊर्जा अध्ययन केंद्र
- Copy to Chairperson, DRC/CRC